

## पुलिस शहीद दिवस

### शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि

जयपुर, 21 अक्टूबर। महानिदेशक पुलिस श्री एम एल लाठर ने पुलिस के अमर शहीदों की याद में बुधवार को प्रातः 8 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

महानिदेशक पुलिस द्वारा 1 सितम्बर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नाम का स्मरण किये जाने के बाद "लास्ट पोस्ट" की धुन बजाई गई। पुलिस आयुक्तालय जयपुर एवं आरएसी चतुर्थ व पांचवी बटालियन की टुकड़ी द्वारा गार्ड आफ ऑनर दिया गया।

सेवानिवृत्त महानिदेशक पुलिस कापिल गर्ग, एडीजी मुख्यालय भूपेंद्र दक, अराजपत्रित पुलिस अधिकारी मदनसिंह आइबी निदेशक के सी मीणा सीबीआई के विवेक प्रियदर्शी, आरपीए निदेशक राजीव शर्मा एवं कमिश्नर पुलिस आनंद श्रीवास्तव ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किये।

अतिरिक्त महानदेशक एवं आरपीए निदेशक राजीव शर्मा ने महानिदेशक की अगवानी की।

इस अवसर पर महानिदेशक जेल श्री राजीव दासोत, महानिदेशक एसीबी श्री बी एल सोनी, अतिरिक्त महानदेशक सर्व श्री सौरभ श्रीवास्तव, श्रीनिवास राव जंगा, संजय अग्रवाल, दिनेश एनएम, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सहित पुलिस अधिकारी गण एवं पुलिस कर्मी मौजूद थे।

### रक्तदान शिविर का आयोजन

पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित चिकित्सालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया महानिदेशक पुलिस श्री लाठर ने रक्तदान शिविर का निरीक्षण किया एवं रक्तदान कर रहे पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने पुलिस मेमोरियल पर भी पुष्पचक्र अर्पित किए।

पुलिस शहीद दिवस परेड प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय सहित आरएसी, प्रशिक्षण केन्द्रों, जोन कार्यालयों एवं रेंज स्तर पर भी आयोजित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहीदों की याद में स्वैच्छिक रक्तदान, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए। प्रदेश की सभी पुलिस लाइन एवं जिलों के अन्य प्रतिष्ठित स्थलों पर झूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नाम प्रदर्शित किये गए।

### प्लाज्मा (डोनेशन) शिविर का आयोजन

पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर एस एम एस हॉस्पिटल स्थित ब्लड बैंक में स्वैच्छिक प्लाज्मा(डोनेशन) शिविर का आयोजन किया गया।